

नासा की नई संचार प्रणाली: LCRD

हाल ही में [नासा \(नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन\)](#) ने अपना नया 'लेज़र कम्युनिकेशंस रलि डमिॉन्स्ट्रेशन' (LCRD) लॉन्च किया है।

प्रमुख बंदि

• लेज़र कम्युनिकेशंस रलि डमिॉन्स्ट्रेशन

- यह नासा की एकमात्र लेज़र संचार प्रणाली है, जो भवषिय के ऑप्टिकल संचार मशिनों का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- वर्तमान में, नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डेटा भेजने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं।
- 'लेज़र कम्युनिकेशंस रलि डमिॉन्स्ट्रेशन' के पेलोड को अमेरिकी रक्षा वंभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट-6 (STPSat-6) के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह भू-समकालिक कक्षा में होगा, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थिति है।
- इसे 'कैलिफोर्निया' और 'हवाई' में LCRD मशिन के ग्राउंड स्टेशनों के इंजीनियरों द्वारा नयित्त्रति किया जाएगा।
- यह टीम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के माध्यम से टेस्ट डेटा भेजेगी और LCRD ऑप्टिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके जवाब देगा।

• वशिषताएँ

- इसके दो ऑप्टिकल टर्मिनल हैं। एक उपयोगकर्त्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिये और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारति करने के लिये।
- मॉडेम डिजिटल डेटा को लेज़र सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद इसे प्रकाश के एन्कोडेड बीम के माध्यम से प्रेषति किया जाएगा।
- ये क्षमताएँ LCRD को नासा का पहला टू-वे, एंड-टू-एंड ऑप्टिकल रलि बनाती हैं।

• महत्त्व

- लेज़र अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होता है। इससे कम समय में ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने में मदद मलियेगी।
 - इन्फ्रारेड लेज़र का उपयोग करते हुए, LCRD 1.2 गीगाबिट-प्रति-सेकंड (Gbps) की स्पीड से पृथ्वी पर डेटा भेजेगा। इस स्पीड से मूवी डाउनलोड होने में एक मिनट से भी कम समय लगेगा।
 - वर्तमान रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के साथ मंगल ग्रह के एक पूरण मानचित्र को पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग नौ सप्ताह लगेते हैं। लेज़रों के साथ, हम इसे लगभग नौ दिनों तक ओर बढ़ा सकते हैं।
- ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैडवडिथ को 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा।
- ऑप्टिकल संचार बैडवडिथ को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम से 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा।
- छोटे आकार का अर्थ है वजिज्ञान के उपकरणों के लिये अधिक जगह का उपलब्ध होना।
- प्रेक्षण यान का वज़न कम होने से लॉन्च कम खर्चीला होता है।
- अंतरिक्ष यान में कम ऊर्जा आवश्यकता से इसकी बैटरियों में कम ऊर्जा संग्रहण करना होता है।
- इस मशिन में रेडियो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सप्लेमेंटिंग (Optical Communications Supplementing) जैसी अद्वितीय संचार क्षमताएँ होंगी।

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

